



# Rajasthan Cylinders and Containers Limited

Regd. Office: SP – 825, Road No. 14, V K I Area, Jaipur -302013 (Rajasthan)

TEL: 91-0141-4031771-2; e – Mail: [info@bajoriagroup.in](mailto:info@bajoriagroup.in)

CIN No: L28101RJ1980PLC002140; Website: [www.bajoriagroup.in](http://www.bajoriagroup.in)

Ref: RCCL/Sec/25-26

Date: 13/11/2025

To,

**BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai – 400001.

**Kind Attn: Listing Department**

**Sub: Newspaper Advertisement of Financial Results for the quarter and half-year ended 30<sup>th</sup> September, 2025.**

**Ref: Rajasthan Cylinders and Containers Limited (Scrip Code: 538707)**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published regarding extract of Un-audited Financial Results for the quarter and half-year ended 30<sup>th</sup> September, 2025 in Financial Express (English edition) and Nafa Nuksan (Hindi edition) on Thursday, 13<sup>th</sup> November, 2025.

This is for your information and record.

Thanking you,

**Yours Faithfully,**

***for Rajasthan Cylinders and Containers Limited***

**(Avinash Bajoria)**

**Chairman cum Managing Director**

**DIN: 01402573**

**Address: 404, Nemi Sagar Colony**

**Queens Road, Jaipur-302021 (Rajasthan)**

**Encl: As above**

<b>INTEGRA CAPITAL LIMITED</b> (Formerly known as Integra Capital Management Limited) CIN No. L74899DL1980PLC040042   GST TIN-07AAAC1082622X Regd. Office: 32, Regal Building, Sansad Marg, New Delhi-110001				
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 <sup>th</sup> SEPTEMBER, 2025				
(Amount in Rs. Lakhs)				
S. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2025 (unaudited)	Quarter Ended 30.09.2024 (unaudited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	8.46	34.92	29.53
2	Net Profit From Ordinary Activities after Tax	6.97	23.15	-6.57
3	Net Profit for the Period after Tax (after Exceptional Items)	6.97	23.15	23.43
4	Paid up Equity Share Capital (Face Value per Share is Rs.10)	470.28	470.28	470.28
5	Reserves excluding Revaluation reserve	-	-	17.10
6	Earning Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each (Not Annualised))			
	(a) Basic and Diluted EPS (before exceptional items (in Rs.))	0.15	0.49	0.50
	(b) Basic and Diluted EPS (After exceptional items (in Rs.))	0.15	0.49	0.50

**Note:** 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchange under regulation 33 of (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Website, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the company's website.

2. There is no qualification in the Unaudited Financial Results Report for the quarter and Half Year ended 30<sup>th</sup> September, 2025.



For Integra Capital Limited  
(Formerly known as  
Integra Capital Management Limited)  
Sd/-  
Tarun Vohra  
Managing Director  
DIN No. 00030470

Place : New Delhi  
Dated : 12.11.2025

<b>ROHA HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED</b> Corporate Office : Unit No. 1117 & 1118, 11th Floor, World Trade Tower, Sector 16, Noida, Uttar Pradesh 201301.				
DEMAND NOTICE				
NOTICE TO BORROWER UNDER SECTION 13 (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.				
NOTICE is hereby given that the following borrower/s who have availed loan from Roha Housing Finance Private Limited (RHFPL) have failed to pay Equated Monthly Installments (EMIs) of their loan to RHFPL and that their loan account has been classified as Non-performing Asset as per the guidelines issued by National Housing Bank. The borrower(s) have provided security of the immovable property/ies to RHFPL, the details of which are described herein below. The details of the loan and the amounts outstanding and payable by the borrower/s to RHFPL as on date are also indicated here below. The borrower(s) as well as the public in general are hereby informed that the undersigned being the Authorized Officer of RHFPL, the secured creditor has initiated action against the following borrower(s) under the provisions of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and enforcement of Security Interest Act, 2002 (the SARFAESI Act). If the following borrower(s) fail to repay the outstanding dues indicated against their names within 60 (Sixty) days of this notice, the undersigned will exercise any one or more of the powers conferred on the Secured Creditor under sub-section (4) of Section 13 of the SARFAESI Act, including power to take possession of the property/ies and sell the same. The public in general is advised not to deal with property/ies described here below.				
Sr. No.	Name of the Borrower(s)/Co-Borrower (s)/Loan A/c No./Branch	Demand Notice Date & Amount	Description of secured asset(s) (immovable property/ies)	
1	<b>LAN : LANODCLPSR00000516324 / Branch : Noida Cluster</b> <b>1. ANIL KUMAR SO MANGERAM, 2. PUSHPA WO MANGERAM</b> <b>Both ADD 1 : ADD1 : (GOTHR, PO, BAGHPAT, UTTAR PRADESH-250611, INDIA)</b> <b>ADD2: (KHASRA NO 37 MIN KHATA NO. 00111, AREA ADM. 262 SQ. YDS., VILLAGE GOTRA, TEHSIL KHEKRA, BAGHPAT, UTTAR PRADESH-250611 INDIA)</b> <b>Sr. No. 1 also at - (SHOP NUMBER 2&amp;3 OPPOSITE PILLAR NUMBER-18, MAIN DELHI DEHRADUN HIGHWAY, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201102, INDIA)</b>	<b>14-10-2025 &amp; Rs.1552691 as on 13.10.2025</b>	<b>All that part and parcel of the property bearing Property Address :</b> <b>(KHASRA NO 37 MIN KHATA NO. 00111, AREA ADM. 262 SQ. YDS., VILLAGE GOTRA, TEHSIL KHEKRA, BAGHPAT, UTTAR PRADESH-250611 INDIA)</b>	
2	<b>LAN : LANJANASCM00000512093 / Branch : Janakpuri</b> <b>1. SHYAM LAL, 2. SANTOSH PAL</b> <b>Both ADD 1 : (KHASRA NO. 419 / 03 GALI NO 10, BLOCK B GAGAN VIHAR, S.B.D. GHAZIABAD UP, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH - 201005, INDIA)</b> <b>ADD 2 : (RESIDENTIAL PLOT OF LAND AREA MEASURING 80 SQ. YDS. OUT OF KHASRA NO. 419/3 MIN SITUATED IN GAGAN VIHAR COLONY VILLAGE-BRAHAMPUR ALIAS BHOPURPARGANA - LONI TEHSIL AND DISTRICT-GHAZIABAD NEAR KRISHNA VATIKA 201205, GHAZIABAD UTTAR PRADESH-201005 INDIA)</b> <b>Sr. No. 1 also at - (C-4 JAINA VIHAR WARD 256, SHADARA NEW DELHI, DELHI, NEW DELHI-110094, INDIA)</b>	<b>14-10-2025 &amp; Rs.589799 as on 13.10.2025</b>	<b>All that part and parcel of the property bearing Property Address :</b> <b>(RESIDENTIAL PLOT OF LAND AREA MEASURING 80 SQ. YDS. OUT OF KHASRA NO. 419/3 MIN SITUATED IN GAGAN VIHAR COLONY VILLAGE-BRAHAMPUR ALIAS BHOPURPARGANA-LONI TEHSIL AND DISTRICT-GHAZIABAD NEAR KRISHNA VATIKA 201205, GHAZIABAD UTTAR PRADESH-201005 INDIA)</b>	

Date - 13.11.2025, Place - GHAZIABAD Authorized officer , Roha Housing Finance Private Limited

<b>RAJASTHAN CYLINDERS AND CONTAINERS LIMITED</b> Regd. Office: SP- 825, Road No. 14, V K I Area, Jaipur-302013, TEL: 91-141-4031771-2 E: info@bajoriagroup.in; W: www.bajoriagroup.in; CIN No: L28101RJ1980PLC002140						
EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 <sup>th</sup> SEPTEMBER, 2025						
(Amt in Lakhs)						
S. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2025 (Un-Audited)	Quarter ended 30.06.2025 (Un-Audited)	Corresponding Quarter ended 30.09.2024 (Un-Audited)	Half Year ended 30.09.2025 (Un-Audited)	Corresponding Half Year ended 30.09.2024 (Un-Audited)
1	a) Revenue from operations	-	-	-	-	-
	b) Other Income	21.91	22.06	24.98	43.97	47.73
	<b>Total Income</b>	<b>21.91</b>	<b>22.06</b>	<b>24.98</b>	<b>43.97</b>	<b>47.73</b>
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(41.46)	(39.00)	(52.24)	(80.46)	(74.65)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(41.46)	(39.00)	(52.24)	(80.46)	(74.65)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after, Exceptional and/or Extraordinary items) from continuing operation	(23.86)	(33.90)	(38.19)	(57.76)	(52.98)
5	Profit/(Loss) from discontinued operations	-	-	(0.12)	-	(2.33)
6	Net Profit/(Loss) for the period/year from Discontinued operation after tax	-	-	-	-	(1.66)
7	Profit/(Loss) for the Period	(23.86)	(33.90)	(38.19)	(57.76)	(54.64)
8	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) & other comprehensive income (after tax))	(21.90)	(31.94)	(35.96)	(53.84)	(54.19)
9	Equity Share Capital	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16
10	Other Equity excluding revaluation surplus as per balance sheet	-	-	-	-	-
11	Earning per Share of Rs. 10/- each (Basic/Diluted) in Rs. (for continuing and discontinued operations)					
	a) Basic	(0.71)	(1.01)	(1.08)	(1.72)	(1.63)
	b) Diluted	(0.71)	(1.01)	(1.08)	(1.72)	(1.63)


**Notes:**

(1) The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and half-yearly Un-audited Financial Results is available on the website of the Stock Exchange ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and also on the Company's website ([www.bajoriagroup.in](http://www.bajoriagroup.in)) and can be accessed by scanning below provided Quick Response code.

(2) The above standalone Un-audited financial results for the quarter and Half year ended 30<sup>th</sup> September, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved & taken on record by the Board of Directors at their meetings held on 12<sup>th</sup> November, 2025.

(3) These Standalone Un-audited Financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

(4) Figures for the previous period have been regrouped/ rearranged wherever necessary to conform to current year presentation.



Place: Jaipur  
Date: 12.11.2025

For Rajasthan Cylinders and Containers Ltd  
Sd/-  
Avinash Bajoria  
(Chairman cum Managing Director)  
DIN: 01402573

## Clix Capital Se

CIN:

Regd. Office: W2/14, Fir

Telephone: +91-1

### Extract of Standalone Financial

S. No.	Particulars
1	Total Income from Operations
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after Other Comprehensive Income (after Tax)]
6	Paid-up Equity Share Capital
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)
8	Securities Premium Account
9	Net worth
10	Paid-up Debt Capital/Outstanding Debt
11	Outstanding Redeemable Preference Shares
12	Debt Equity Ratio
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)*
	Basic:
	Diluted:
14	Capital Redemption Reserve
15	Debt Redemption Reserve
16	Debt Service Coverage Ratio
17	Interest Service Coverage Ratio

\*Quarter ended Basic EPS and Diluted EPS are not

**Note 1:** The above results for the Quarter ended 30<sup>th</sup> Sep the Board of Directors at their respective meetings held 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Re

**Note 2:** The above is an extract of the detailed format of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disc on the website of National Stock Exchange - [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

**Note 3:** For the items referred to in the sub-clause Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disc accessed on [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Place: Gurugram  
Date: 11 November 2025

EXTRACT OF ST	
Sr. No.	Pa
1	Total Income from Operations
2	Net Profit/(Loss) for the period ( before Tax, E
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (afte
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax
5	Total Comprehensive Income for the period ( the period (after tax) and Other Comprehensive
6	Equity Share capital
7	Reserves (excluding Revaluation reserves as previous accounting year)
8	Earning per Share (of Re. 1/- each)(not annu
	1. Basic
	2. Diluted

**NOTES:**

1. The above unaudited financial results for the quar meeting held on 12<sup>th</sup> Day of November, 2025

2. The above is an extract of the detailed format of Q Quarterly Financial Results are available on the t

3. The above results have been prepared in accord practices and policies to the extent applicable.

Date: 12.11.2025  
Place: New Delhi



णा में  
का ।  
गेई  
वह  
गी  
यों  
नी  
ल  
धूर  
है ।  
भी  
क  
पर  
लर्ड  
जा